

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018—भाद्रपद 30, शक 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पुष्पान्जली चौहान ध. प. स्व. महेशराम चौहान, उम्र 42 वर्ष, निवासी-बोइरदादर, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम चुनमुन बाई था तथा यह नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. वर्तमान में मैं सहायक श्रमायुक्त रायगढ़ में कार्यरत हूं, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम चुनमुन बाई दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पुष्पान्जली चौहान रख ली हूं. मेरा परिवर्तित नया नाम मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है. मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती पुष्पान्जली चौहान ध. प. स्व. महेशराम चौहान दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती पुष्पान्जली चौहान ध. प. स्व. महेशराम चौहान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

#### पुराना नाम

चुनमुन बाई  
पति- स्व. महेशराम चौहान  
निवासी-बोइरदादर, रायगढ़,  
तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

#### नया नाम

श्रीमती पुष्पान्जली चौहान  
पति- स्व. महेशराम चौहान  
निवासी-बोइरदादर, रायगढ़,  
तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती वीणा वर्मा, ध. प. श्री महावीर सिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी-म. नं. 7/ ए, सड़क-13, सेक्टर-04, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड में श्रीमती वीणा देवी (Smt. Vina Devi) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरा सही व पूर्ण नाम श्रीमती वीणा वर्मा (Smt. Veena Verma) दर्ज है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में दर्ज है। मैं अपने सही व पूर्ण नाम “श्रीमती वीणा वर्मा” को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती वीणा वर्मा (Smt. Veena Verma) ध. प. श्री महावीर सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती वीणा देवी (Smt. Vina Devi) पति- श्री महावीर सिंह निवासी-म. नं. 7/ए, सड़क-13, सेक्टर-04, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती वीणा वर्मा (Smt. Veena Verma) पति- श्री महावीर सिंह निवासी-म. नं. 7/ए, सड़क-13, सेक्टर-04, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती स्मिता ध.प. श्री राजू कुमार, उम्र 51 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-01/बी, सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती स्मिता आर. कुमार दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, मेरा सही व वास्तविक नाम श्रीमती स्मिता ध. प. श्री राजू कुमार है जो कि मेरे आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने सही नाम “श्रीमती स्मिता ध.प. श्री राजू कुमार” को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती स्मिता (Smt. Smitha) ध.प. श्री राजू कुमार (Shri Raju Kumar) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती स्मिता आर. कुमार (Smt. Smitha R. Kumar) पति-श्री राजू कुमार (W/o Shri Raju Kumar) निवासी-क्वा. नं.-01/बी, सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती स्मिता (Smt. Smitha) पति-श्री राजू कुमार (W/o Shri Raju Kumar) निवासी-क्वा. नं.-01/बी, सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सौरभ कुमार देवांगन, आत्मज श्री महेश कुमार देवांगन, उम्र 25 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-4-सी, सड़क नं.-30, सेक्टर-1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूँ। यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा पहली से लेकर कक्षा ग्यारहवी तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, ड्रायविंग लायसेंस, वंशावली, निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम सौरभ कुमार देवांगन (Sourabh Kumar Dewangan) दर्ज है। कक्षा बारहवीं, बी.ई. एवं पी.जी.डी.सी.ए. के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम सौरभ देवांगन (Sourabh Dewangan) दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा पूर्ण नाम “सौरभ कुमार देवांगन” दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे सौरभ कुमार देवांगन (Sourabh Kumar Dewangan) आ. महेश कुमार देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

### पुराना नाम

सौरभ देवांगन

(Sourabh Dewangan)

पिता-श्री महेश कुमार देवांगन

निवासी-क्वा. नं.-4-सी, सड़क नं.-30, सेक्टर-1, भिलाई

तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

### नया नाम

सौरभ कुमार देवांगन

(Sourabh Kumar Dewangan)

पिता-श्री महेश कुमार देवांगन

निवासी-क्वा. नं.-4-सी, सड़क नं.-30, सेक्टर-1, भिलाई

तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राज नागदेव आत्मज स्व. खेमचंद नागदेव, उम्र 34 वर्ष, निवासी-म.नं.-बी./33, पुलिस चौकी के पीछे, शैलेन्द्र नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम योगेन्द्र कुमार था, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि में मेरा नाम राज नागदेव दर्ज है। मेरा परिवर्तित यह नया नाम “राज नागदेव” मेरे समस्त दस्तावेजों व राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे राज नागदेव आ. स्व. खेमचंद नागदेव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

### पुराना नाम

योगेन्द्र कुमार

पिता-स्व. खेमचंद नागदेव

निवासी-म.नं.-बी./33, पुलिस चौकी के पीछे, शैलेन्द्र नगर,

रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

### नया नाम

राज नागदेव

पिता-स्व. खेमचंद नागदेव

निवासी-म.नं.-बी./33, पुलिस चौकी के पीछे, शैलेन्द्र नगर,

रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

## विविध

### अन्य सूचनाएं

न्यायालय, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 25 अगस्त 2018

रा.मा.क्र. - 27 अ-6 (अ) वर्ष 2017-18.—एतद्वारा सर्व साधारण आम जनता/ग्रामवासी, ग्राम-बोरी, प.ह.नं.-36, तहसील व जिला राजनांदगांव को सूचित किया जाता है कि आवेदक, हरिराम विश्वकर्मा पिता खोरबाहरा विश्वकर्मा, निवासी ग्राम व पो.-बोरी, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा ग्राम-बोरी, प.ह.नं.-36, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 399/1, 598/1 रकबा क्रमशः 0.028 हे. 0.846 हे. कुल खसरा नं. 02 कुल रकबा 0.874 हे. के खाते में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम हगरू पिता खोरबाहरा के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम हरिराम विश्वकर्मा पिता खोरबाहरा विश्वकर्मा दर्ज कर अभिलेख दुरुस्त किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे पेशी दिनांक 13-09-2018 तक लिखित में मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित पेशी तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतएव उक्त ईशतहार आज दिनांक 25-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

जारी दिनांक — 25-08-2018

सुनवाई दिनांक — 13-09-2018

हस्ता./-

कार्यपालिक दण्डाधिकारी.